



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 353]
No. 353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 1984/श्रावण 5, 1906
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 1984/SRAVANA 5, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1984

का०आ० 535 (अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976
(1976 की 21) धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पंजाब नेशनल बैंक, के अनुरोध पर
27-7-1984 से मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के
मुजफ्फरनगर जिले की स्थायी सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एक 1-25/83-आर आर की (1)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th July, 1984

S.O. 535(E).—In exercise of the powers conferred
by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural
Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Govern-

ment on being requested so to do by Punjab National
Bank, establishes with effect from the 27th July, 1984
a Regional Rural Bank in the State of Uttar Pradesh
under the name of Muzaffarnagar Kshetriya Gramin
Bank, which shall operate within the local limits of
the district of Muzaffarnagar in the State of Uttar
Pradesh.

[No. F. 1-25/83-RRB(1)]

का०आ० 536 (अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976
(1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक मुजफ्फरनगर
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक से परामर्श करके,
मुजफ्फरनगर की उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर
मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एक. 1-25/83-आर. आर. की. (2)]

S.O. 536(E).—In pursuance of the powers conferred
by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural
Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Govern-
ment after consultation with the Reserve Bank of
India and Punjab National Bank by which Muzaf-
farnagar Kshetriya Gramin Bank has been sponsored,

specifies Muzaffarnagar as the place where Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank shall have its Head Office.

[No. F. 1-25/83-RRB(II)]

का०आ० 537 (अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुजफ्फरनगर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक. 1-25/83 आर. आर. बी. (3)]

S.O. 537(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purpose of the said sub-clause, Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarnagar being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-25/83-RRB(III)]

का०आ० 538 (अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जे. डी. खेतपाल को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 27 जुलाई, 1984 से प्रारम्भ होकर 31 जुलाई, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री जे. डी. खेतपाल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 1-25/83-आर.आर. बी. (4)]

अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

S.O. 538(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri J.D. Khetrpal as the Chairman of the Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarnagar and specifies the period com-

mencing on the 27th July, 1984 and ending with the 31st July, 1987 as the period for which the said Shri J. D. Khetrpal, shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-25/83-RRB(IV)]
A.K. AGARWAL, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

(ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग)

अधिसूचना

बम्बई, 27 जुलाई, 1984

का आ. 539 (अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित करने का निर्देश देता है :
“मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उ. प्र.)”

[संदर्भ :—आरपीसीबी सं. 283/आई एन सी एल/311-84]
वि. ना. अनन्तराम अय्यर, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Rural Planning and Credit Department

NOTIFICATION

Bombay, the 27th July, 1984

S.O. 539(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following Bank, namely :

“Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarnagar (U.P.).”

[Ref. RPCD. 283/INCL/311-84]
T. N. ANANTHARAM IYER, Executive Director.